

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
अन्सारी नगर, नई दिल्ली-110029 /ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029
छात्रावास अनुभाग/ HOSTEL SECTION

सं. फा./NO.F.15-49/ 2012 जी.एच. / G.H.

दिनांक / Date : _____

मकान किराया-भत्ता का प्रदान करने के लिए आवेदन
APPLICATION FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCES

1. आवेदक का नाम :

Name of the Applicant
2. पदनाम :
Designation
3. विभाग :
Department
4. कार्यग्रहण की तिथि :
Date of Joining
5. छात्रावास (यदि प्रदान किया गया है) :
Hostel accommodation (if provided)
6. वैवाहिक स्थिति :
Marital Status
7. यदि विवाहित हैं
If married
- (क) पति या पत्नी का नाम एवं पदनाम :
(a) Name & Designation of spouse
- (ख) पति या पत्नी का आवासीय पता :
(b) Residential address of the spouse
- (ग) आवास का प्रकार : सरकारी / प्राइवेट :
(c) Nature of Accommodation : Govt. / private
- (घ) कक्ष सं. / छा. सं. (यदि प्रदान किया गया है) :
(d) Room No./Hostel No. (if provided)
- (ड.) पति या पत्नी का कार्यालय का पता :
(e) Office address of the spouse
8. यदि अविवाहित हैं, तो दिल्ली में आवासीय पता :
If unmarried residential address in Delhi
- (क) आवास का प्रकार : सरकारी / प्राइवेट :
(a) Nature of Accommodation : Govt. / private
- (ख) आवास के मालिक (आबंटिती होने पर) का नाम :
(b) Name of the owner (in case of the allotted) of accommodation
- (ग) आवास के मालिक / आबंटिती के साथ संबंध :
(c) Relationship with the owner/ allottee
9. किस तारीख से एच.आर.ए. का दावा किया गया है :
Date from which H.R.A. is being claimed

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है।

I declare that the above particulars are correct to the best of my knowledge and belief.

विभागाध्यक्ष, संस्तुति सहित अग्रेषित /H.O.D. Forwarded & recommended

आवेदक के हस्ताक्षर/ Signature of Applicant

नाम /Name.....

पदनाम /Designation

विभाग / Department.....

..... hereby declare that I am not staying in AIIMS or government accommodation provided to my spouse nor my spouse is drawing HRA from AIIMS /government department. In future, if these facts change I shall inform the Hostel Office immediately.

Signature of applicant